

प्रेस-विज्ञप्तिथाना दीदारगंजअवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में व थानाध्यक्ष दीदारगंज संजय कुमार सिंह व उ०नि० श्री सच्चन राम मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो अपने पास अवैध तमंचा के साथ कुछ घटना कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष दीदारगंज व उ०नि० हमराह पुलिस द्वारा बताये गये स्थान अमृतगंज चौहारा के पास बहग्राम गुआई पर पहुँचकर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उसका नाम अफजल पुत्र बिसमिल्ला निवासी ग्राम राजापुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया गया। उसके पास से एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के बरामद हुआ। अवैध तमंचा बरामदी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 50/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु०अ०सं० 50/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1- अफजल पुत्र बिसमिल्ला निवासी ग्राम राजापुर थाना दीदारगंज आजमगढ़  
बरामदगी –

1- एक अदद तमंचा नाजायज .315 बोर

2- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० सच्चन राम थाना दीदारगंज आजमगढ़

2. का० दीपू शर्मा थाना दीदारगंज आजमगढ़

3. का० सुनील कुमार प्रजापति थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना दीदारगंज04 नफर अभियुक्त जुआ अधि० के तहत गिर०

आज दि० 01.04/21 को थानाध्यक्ष दीदारगंज संजय कुमार सिंह व उ०नि० श्री धनराज सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मय फोर्स के महा अभियान के तहत तलाश वांछित अपराधी रोकधाम जुर्म जरायम के दृष्टिगत क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर आज दिनांक 01.04.2021 समय 8.15 बजे सुबह को 4 नफर अभियुक्त 1.दीपक सोनकर पुत्र ललसू सोनकर

2. सुनील सोनकर पुत्र फिरतू सोनकर 3. दिनेश गुप्ता पुत्र चुन्नीलाल निवासीगण पल्थी थाना दीदारगंज आजमगढ़ 4. पंकज उर्फ पिन्टू गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम भेडिया थाना दीदारगंज आजमगढ़ पल्थी के जल निगम की बाउन्ड्रीवाल के पास हार जीत का बाजी लगाकर ताश के पत्ते से जुआ खेल रहे थे। माल फड 1400 रूपया जामा तलाशी 140 रूपये व ताश के 52 पत्ते समय करीब 8.15 बजे बरामद करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 51/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया।

## जिलाधिकारी आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा ब्लाक व मतदान केन्द्रों का किया गया निरीक्षण

दिनांक- 01.04.2021 को जिलाधिकारी आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ब्लाक व मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमें सर्वप्रथम अजमतगढ़ ब्लाक के इंग्लिश मीडियम प्राईमरी स्कूल, मसोना, अजमतगढ़, जनपद-आजमगढ़ में मतदान केन्द्र का निरीक्षण करते हुए वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गयी।

उसके पश्चात जीयनपुर के नवोदय विद्यालय जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ का निरीक्षण करने के पश्चात बिलरियागंज ब्लाक के प्रा0 वि0 अण्डाखोर में प्रधान प्रत्याशी के साथ मीटिंग करते हुए मतदान को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

### \*थाना-मेहनाजपुर\*

#### \*अवैध शराब व गांजा के साथ एक गिरफ्तार\*

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक (नगर), व क्षेत्राधिकारी लालगंज व प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में उ.नि. अतीक अहमद मय हमराह का0विकाश सरोज ,म0का0 पूजा पाण्डेय व धीरज कुमार सिंह आ0 सि0 क्षेत्र 3 के प्रस्थान कर अभियोग देखभाल क्षेत्र ,तलाश वाछित अभियुक्त कस्बा उधरा टड़िया में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्ता दीपा देवी पत्नी कैलाश चौहान ग्राम उधरा टड़िया थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ में अपने घर पर बनी मड़ई में बैठकर अवैध शराब व गांजा बेच रही है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर मय हमराह के प्रस्थान कर ग्राम उधरा टड़िया अभियुक्ता दीपा देवी के घर पर पहुंच कर दबिस दी गई तो अभियुक्ता दीपा देवी अपने घर पर मौजूद मिली नाम पता पूछा गया तो अपना नाम दीपा देवी पत्नी कैलाश चौहान ग्राम उधरा टड़िया थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताया अभियुक्ता को मुकदमें का हवाला देते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 8.40 बजे हिरासत पुलिस में

लिया गया गिरफ्तारी बावत सूचना मौके पर ही मौजूद उसके पति कैलाश चौहान को दी गई। जिसकी गिरफ्तारी बावत दाखिला समय 8.40 पर किया गया है नकल रपट रो.आम संलग्न सी.डी किया जाता है।

**पूछताछ का विवरण:** गिरफ्तार महिला से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर रही है तथा अपने किये गये अपराध पर बार-बार माफी मांग रही है।

**पंजीकृत अभियोग-1.** मु.अ.सं. 29/21 धारा 60 EX ACT व मु.अ.सं. 30/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट

**गिरफ्तार अभियुक्ता :**

1. दीपा देवी पत्नी कैलाश चौहान ग्राम उधरा टड़िया थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

**विवरण बरामदगी :**

1- 18 शीशी देशी शराब नाजायज 01 Kg 100g गांजा (10 पुड़िया)

**गिरफ्तार करने वाली टीम:**

1. SI अतीक अहमद थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

2. का0विकाश सरोज थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

3. म0का0 पूजा पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

4. धीरज कुमार सिंह आबकारी सिपाही क्षेत्र 3 लालगंज